


महाविद्यालय में पंजीयित होने वाले शोध छात्रों हेतु सामान्य नियम निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं -


1. महाविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र ही शोध केन्द्र के रूप में मान्य होंगे। इन शोध केन्द्रों में केवल महिला शोधार्थियों का पंजीयन होगा। अपवाद स्वरूप महाविद्यालय में पदस्थ पुरुष प्राध्यापकों यह केन्द्र चुनने की पात्रता होगी।
2. अन्य परिस्थितियों में पुरुष शोधार्थी इस महाविद्यालय को शोध केन्द्र बना सकता है परंतु उसे पुस्तकालय सुविधा की पात्रता नहीं होगी।
3. शोध पंजीयन हेतु महाविद्यालय द्वारा अग्रेषित किए जाने वाले आवेदन निम्न नियमों के अधीन होंगे।
 - (I) शोध उपाधि हेतु आवेदन से लेकर उपाधि प्राप्त होने तक रु. 1000/- एकमुश्त (केवल एक बार) शोध-केन्द्र शुल्क देय होगा।
 - (II) पुस्तकालय सुविधा हेतु रु. 1500/- वार्षिक पुस्तकालय शुल्क देय होगा। जिसके प्रतिदान में शोधार्थी को पुस्तकालय एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। इंटरनेट प्रभार 15/- प्रति घंटा एवं फोटोकापी शुल्क 1/- प्रति पेज देय होगा।
 - (III) शोधार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें निर्गत की जा सकेंगी। संदर्भ ग्रंथ का अध्ययन वाचनालय में ही किया जा सकेगा।
 - (IV) शोधार्थियों को शोध संबंधी प्रत्येक गतिविधि से अपने मार्गदर्शक एवं शोध समिति को अवगत कराना होगा। यथा - आवेदन पत्र, शुल्क रसीद, संक्षेपिका की प्रति, शीर्षक अनुमोदित होने पर आर.डी.सी. पत्र की प्रतिलिपि, शोध प्रबंध की प्रति, एवं शोध-केन्द्र का अदेय प्रमाण पत्र इत्यादि।
 - (V) पुस्तकालय सुविधा प्राप्त करने वाले शोधार्थी नियमित छात्र माने जायेंगे।
 - (VI) शोध उपाधि प्राप्त होने पर अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. अन्य परिस्थितियों में किसी अन्य महाविद्यालय का शोध निर्देशक होने पर भी महिला शोधार्थी को यह केन्द्र चुनने की पात्रता होगी।
5. समय-समय पर संशोधनाधीन नियम मान्य किए जायेंगे।

(विद्वत् परिषद् द्वारा अनुमोदित)



डा. जे.एस. दुबे

संयोजक- शोध समिति



प्रचार्य

faculty members motivate to take up socially relevant issues.

survey based research promote for empirical understanding of the hindrances faced by girl students in the educational endeavour.

critical thinking among students develop at the undergraduate level.

promote research which deals with societal challenges particularly those that affect the targeted population of the institution.

establish linkages with state and local organizations for widening the scope.

employing quantitative tools, such as 'h-index', to measure the productivity & impact of the publications of the researchers.

Shakti

Shakti
(डॉ० स्मृति शुक्ल)
संयोजक
शोध-समिति

Principal
Principal
Govt. M.B. Arts & Commerce
(Auto.) College of Women
Jabalpur (M.P.)

शासकीय मानकुंवरबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)



Research Policy of the Institutions

Knowledge building and knowledge creation are two dimensions that must form an integral part of the curriculum of any higher education institution. These two dimensions are not isolated or compartmentalized entities but go hand-in-hand. Knowledge building denotes adding clarity to existing knowledge or applying the existing knowledge with reference to a particular domain (Geographical, Social Class, Caste etc.) and then analysing its impact and the outcome-knowledge. Creation denotes adding to the existing body of knowledge. It could take the form of technological creation is innovation or altogether an new set of principles to study reality.

In this way, Research is the only vehicle that leads to knowledge building and knowledge creation. Its significance is indeed very important today considering the rapid changes taking place in the world. With the ever increasing reach of education, people at large are bound to be more aware and more conscious and thus more demanding. The intellectual demands of the citizenry have to be looked after by those claiming comprehension of reality. Reality being in constant flux demands new technique and novel framework for studying and comprehending it. Thus, the need for research.

This institution chiefly being a study centre for Social Sciences and Commerce stream becomes an added advantage for studying societal challenges from the market perspective also. The growth of market in the last three decades post 1991, has been so extensive that it has come to influence every aspect of individual and social behaviour. Thus, the need to study social phenomena from market perspective. The gender specific uniqueness of the institution allows it to study various social challenges from feministic perspective. Being a woman institution gives it that extra leverage to study changes in women's behaviour in varied facets of life.

The diverse social and economic milieu from which the bulk of students come provides the institution a very prized position to study and research various social and market related issues from rural, semi-urban, poor, low-income, lower middle class, low educational level and gender specific perspectives.

Keeping the above in view, the institution aims to transform the quality of research among the teachers and students by developing a research mindset amongst them. Consequently, to build on these various elements and to promote quality research, the institution has a Research Cell. The goal of the cell is to enable a culture of research in the institution.

With the above policy framework, the research cell of the institution aims to-create a research mindset in the institution by recognizing and incentivizing research.

Create an enabling framework for those willing to take up research activities promote inter-disciplinary research